

Regarding Muslim quota against OBC reservation

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान अभी कर्नाटक में मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट्स में जो चार परसेंट आरक्षण मिला है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी तक तो उन्हें एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता था, कहीं नौकरी में बैक डोर से रिजर्वेशन देने की बात सामने आती थी, लेकिन अब उन्हें ठेकेदारी में भी आरक्षण मिलेगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सन् 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और सन् 1921 में उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। सन् 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके संयुक्त सरकार बनाई और अलग से उनके लिए वोटर कार्ड हो, अलग से उनका अधिकार हो, इस आधार को बढ़ाते हुए इस देश का बंटवारा कर दिया। यह फैक्ट है कि इस देश का धर्म के आधार पर सन् 1947 में बंटवारा हो गया। पाकिस्तान बन गया। आज जो सिचुएशन है, जातिगत जनगणना के नाम पर, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, यही कर्नाटक में उन्होंने किया था। ये बैक डोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काटकर, क्योंकि अभी जैसा तेलंगाना में हुआ है, सोरोस और जर्मनी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस कमेटी में वे लोग सदस्य थे और ये उसमें ओबीसी में मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं। ओबीसी का अधिकार खत्म करने की बात करते हैं। ? (व्यवधान)

जिस तरह से उन्होंने सन् 1921 और सन् 1937 में किया, वही काम ये फिर से करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि अपोजिशन में सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ केवल मुसलमान वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहती हैं। ? (व्यवधान) ये भारत के ताने-बाने को तहस-नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14,15,16,17 और 27 कहता है कि इस देश में रिलिजन के नाम पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ? (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप कानून बनाइए और अपोजिशन का ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसे खत्म करिए और मुसलमानों को बैक डोर से एंट्री मत दीजिए। ? (व्यवधान)

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI
ARJUN RAM MEGHWAL):** Shri Nishikant Dubey ji has raised a very important and a serious issue. We will communicate his feelings to the Ministry concerned.

12.58 hrs

At this stage, Shri Harish Chandra Meena, Prof. Varsha Eknath Gaikwad

and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : मैडम, मैं भी इस विषय से एसोसिएट करता हूँ।(Interruptions)

Madam, a State should be secular in nature. But through this four per cent Muslim reservation, the Congress Government in Karnataka is incentivizing religious conversion to Islam. A secular State cannot take such measures. Not only this, the Central Government has banned PFI and KFD.(*Interruptions*) पीएफआई और केएफडी के जो लोग बेकार बैठे हैं, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस काम कर रही है । This should be rolled back.(*Interruptions*) इसके खिलाफ कानून लेकर आना चाहिए ।